



भारत सरकार रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
कृत्रिम ज्ञान तथा रोबोटिकी केन्द्र
डी.आर.डी.ओ कॉम्प्लेक्स, सी वी रामन नगर, बेंगलूरु- 560093
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION
CENTRE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS
DRDO Complex, CV Raman Nagar, Bengaluru- 560093



6 माह की पेड इंटरनशिप हेतु विज्ञापन / Advertisement for Paid Internship (6 Months)

कृत्रिम ज्ञान तथा रोबोटिकी केंद्र (केयर) डी.आर.डी.ओ. की शीर्षस्थ प्रयोगशाला है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिकी, कमांड एवं नियंत्रण, सूचना व संचार सुरक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्यों में कार्यरत है, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित संचार एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए मिशन महत्वपूर्ण उत्पाद विकसित हो रहे हैं।

Centre for Artificial Intelligence and Robotics (CAIR) is a premier laboratory of DRDO involved in Research and Development in the areas of Artificial Intelligence, Robotics, Command and Control, Information and Communication Security leading to development of Mission Critical products for Battlefield secure communication and information management systems.

Applications are invited from bright and young students for a 6-month Paid Internship to work in research areas of national importance.

इंटरनशिप विवरण / Internship Details

क्र.सं.	इंटरनशिप विषय / Area of Internship	आवश्यक योग्यता / Essential Qualification	रिक्ति संख्या/No of Vacancies
1.	Computer Science/Computer Engineering/Information Technology/AI-ML	B.E./B.Tech. (Final Year) Computer Science/Information Technology/Information Science/AI- ML/ (ongoing) with First Division.	50
2.	Electronics & Communication	B.E./B.Tech. (Final Year) Electronics & Communication (ongoing) with First Division.	10

कार्यकाल / Duration: 6 महीने (6 Months)

कार्यस्थल / Place of Internship:

कृत्रिम ज्ञान तथा रोबोटिकी केन्द्र
भारत सरकार रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
डी.आर.डी.ओ कॉम्प्लेक्स, सी वी रामन नगर,
बेंगलूरु- 560093

CENTRE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION
DRDO Complex, CV Raman Nagar,
Bengaluru- 560093

मासिक वजीफा / Monthly Stipend : ₹5,000/- प्रतिमाह (Fixed) / Rs. 5,000/- per month (Fixed)

चयन प्रक्रिया / Selection Process :

Selection will be based on a weighted scoring of 10th(Physics & Maths), 12th(Physics & Maths)/Diploma and Semester Percentages of B.Tech/BE. A weightage of 10% will be given for 10th and a weightage of 15% will be

given for 12th/Diploma Final Semester marks. Further, the scoring during the successful semesters completed in B.Tech/BE will be given 75% weightage.

Interviews will be conducted if necessary for shortlisted candidates.

महत्वपूर्ण जानकारी / Important Notes

- यह इंटरनशिप पूर्णतः अस्थायी है और इसमें DRDO में समायोजन का कोई अधिकार नहीं है।
The internship is purely temporary and does not confer any right for absorption in DRDO.
- इंटरनशिप की संख्या प्रयोगशाला की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।
Number of internships may vary depending on the lab's requirements.
- विस्तृत नियम व शर्तों सहित आवेदन पत्र [ad-hrt.cair\[at\]gov.in](mailto:ad-hrt.cair[at]gov.in) पर अनुरोध कर प्राप्त किया जा सकता है।
Detailed terms & conditions and the application form can be obtained by sending a request to [ad-hrt.cair\[at\]gov.in](mailto:ad-hrt.cair[at]gov.in)
- रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर पूर्णतः भरा हुआ आवेदन [ad-hrt.cair\[at\]gov.in](mailto:ad-hrt.cair[at]gov.in) पर भेजना अनिवार्य है।

Duly filled application form must reach [ad-hrt.cair\[at\]gov.in](mailto:ad-hrt.cair[at]gov.in) within 15 days from the date of publication of this advertisement with subject as "Application for Paid Internship Aug 2025".

Guidelines/general terms and condition for the implementation of Paid Internship has been prescribed:

- a) The internship period ranges from 4 weeks (minimum) to 6 months (maximum). However, **only** the candidates offered internship for the duration period of 6 months will be eligible to receive a stipend of Rs.5000/- per month by the respective Lab/Estt., through electronic transfer.
- b) The stipend of the entire duration will be paid through electronic transfer in two equal installments i.e. 15000/- after the completion of the 3 months and 15000/- after the completion of 6 months of the internship. Any other expenditure such as lodging, boarding, transport, medical, etc., if any shall be borne by the individual concerned during the entire course of the internship.
- c) Candidate enrolled for the internship for a certain period may request the lab/estt for extension of his/her period subject to overall limit of six months. The request will be examined by the concerned laboratory from financial and infrastructure angle and outcome of the same will be communicated to the candidates before the expiry of the initial internship period. (there is no provision for grant of stipend beyond 6 months in the scheme)
- d) The internship will be provided for fields relevant to DRDO's research.
- e) Interested candidates need to apply through their respective institutes, corresponding with the relevant DRDO laboratory.
- f) The interns will only be granted the duty/task for the period of the internship, considering the nature of the work and Indian Official Secrets Act, 1923, and therefore, would be liable to the provisions of the Indian Official Secrets Act, 1923 and rules and regulations of DRDO / laboratories.
- g) The interns will only be granted access to non-classified areas within DRDO laboratory.
- h) Failure to comply with the rules and regulations of laboratory or any breach of the Security Act, will be grounds for termination of the internship without any notice.
- i) DRDO will not be responsible for any injuries sustained during the period of the internship period.

- j) Candidates need to handle the equipment (computer, etc) provided by the DRDO carefully. Else, they will be liable to compensate DRDO for any damage or degradation of the equipments.
- k) The candidate will not disclose/publish information at any platform like newspaper, periodical, social media, etc., related to any subject of DRDO, which is restricted/confidential in nature, failing which the necessary action as per Official Secrets act and rules and regulations of DRDO will be taken. An undertaking in this regard may be sought from the candidate
- l) Attendance will be marked by the candidates as per the labs process. Working hours will be as per the laboratory's time
- m) No leave except Sick leave on the production of valid prescriptions will be given to the candidates. Gazetted/closed Holidays as applicable/available in the laboratory will also be applicable to the candidates.
- n) Completion of the internship does not guarantee employment at DRDO.

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / Senior Administrative Officer
कृते निदेशक / For Director



भारत सरकार रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
कृत्रिम ज्ञान तथा रोबोटिकी केन्द्र
डी.आर.डी.ओ कॉम्प्लेक्स, सी वी रामन नगर, बेंगलूरु- 560093
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION
CENTRE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS
DRDO Complex, CV Raman Nagar, Bengaluru- 560093

Application Form for Paid Internship

1	Application for	<input type="radio"/> Paid Internship	Paste Photograph Here
2	What is your highest relevant Educational Qualification?	<input type="radio"/> B.Tech./B.E.	
3	Pursuing Discipline (Branch) & Present Semester		
PERSONAL INFORMATION			
a)	Full Name		
b)	D.O.B.		
c)	Aadhar Card Number		
d)	Temporary Address		
e)	Permanent Address		
f)	Phone No.		
g)	Email ID		
h)	Father's Name		
i)	Father's Email ID		
j)	Father's Occupation		
k)	Father's mobile no.		
l)	Mother's Name		
m)	Mother's Occupation		
n)	Mother's Mobile No.		
o)	Mother's email id		
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS			
a)	Name of University / Institute		
b)	Semester 1 %		
c)	Semester 2 %		
d)	Semester 3 %		
e)	Semester 4 %		
f)	Semester 5 %		
g)	Semester 6 %		
h)	Semester 7 %		
i)	10 TH Percentage		
j)	12 TH Percentage		
k)	Diploma Percentage (if applicable)		
l)	Other Qualifications		

DECLARATION

I hereby declare that, the above furnished particulars are correct and no information is suppressed. I understand that if any of the above information is found to be incorrect or some information is suppressed then my candidature is liable to be rejected and I may be subjected to any other action as the Government may deem fit.

Place		Signature of the Candidate
Date		

- a) Kindly download the above document and please email the soft copy of the duly filled-in Application Form without signature, only to the email address **ad-hrt.cair@gov.in**, positively by **16th July, 2025** in the ***.docx format**. Application received after this date will be summarily **rejected**. Signatures are not required for sending the soft copy.
- b) The filename of the *.docx file should be your name all in small letters followed by year of birth (yyyy), without any spaces. For example for a candidate Dr. Rahul Kumar who is born in the year 1988, the filename should be: rahulkumar1988.docx
- c) Do not send the scanned copy/*.pdf of the 'Application Form'. This Application Form should only be submitted in *.docx file.
- d) Scanned copies of following documents (if applicable) are required to be attached in the email along with the application form:
- 10th Mark Sheet
 - 12th Mark Sheet
 - Diploma Mark Sheet (if applicable)
 - Semester Mark Sheets of all the completed semesters
 - Character Certificate
 - LOR(Letter of Recommendation from college head with CGPA/SGPA conversion to percentage formula)
 - CV
 - College ID Card
 - Aadhar Card
- e) Incomplete applications are liable to be rejected.
- f) Invitation for Interview will be sent only to the short-listed candidates, through email only.
- g) All the original documents and marks sheets will have to be produced at the time of joining.
- h) Selected candidates will have to submit valid Police Verification Certificate at the time of joining.

Admin Head